

भारत सरकार
पर्यटन मंत्रालय
राज्य सभा
लिखित प्रश्न सं. 946
गुरुवार, 9 फरवरी, 2023/20 माघ, 1944 (शक)
को दिया जाने वाला उत्तर

हम्पी को एक शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना

946. श्री नारायण कोरागप्पा:

क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

- (क) क्या सरकार कर्णाटक राज्य में यूनेस्को द्वारा विश्व विरासत स्थल के रूप में वर्गीकृत हम्पी को एक शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा दे रही है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (ख) वर्ष 2022 में कर्णाटक और हम्पी की यात्रा करने वाले स्थानीय पर्यटकों और विदेशी पर्यटकों की संख्या कितनी है;
- (ग) क्या हम्पी को एक शीर्ष पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देने के लिए सार्वजनिक-निजी भागीदारी का उपयोग किया गया है, यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- (घ) कर्णाटक के पर्यटन क्षेत्र में प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से सृजित हुई जनशक्ति का ब्यौरा क्या है; और
- (ङ) स्थानीय और विदेशी पर्यटकों द्वारा की गई पर्यटन स्थलों की यात्राओं की दृष्टि से कर्णाटक के शीर्ष पाँच पर्यटन स्थल कौन-कौन से हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री

(श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) पर्यटन मंत्रालय "आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार" (डीपीपीएच) तथा "विदेश में संवर्धन और प्रचार" (ओपीपी) योजनाओं के तहत विभिन्न पहलों के माध्यम से कर्नाटक में हम्पी सहित, भारत का समग्र रूप से संवर्धन करता है। भारत के विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों के संवर्धन हेतु यह मंत्रालय वर्तमान में जारी अपने कार्यकलापों के एक भाग के रूप में "अतुल्य भारत" ब्रांड लाइन के तहत अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में नियमित रूप से प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक, ऑनलाइन तथा आउटडोर मीडिया अभियान जारी करने के साथ-साथ अपनी वेबसाइट और सोशल मीडिया संवर्धन के माध्यम से विभिन्न पर्यटन गंतव्यों और उत्पादों को नियमित रूप से बढ़ावा देता है।

(ख) पर्यटन मंत्रालय द्वारा पर्यटक यात्राओं का गंतव्य-वार डेटा नहीं रखा जाता है। तथापि, पिछले तीन वर्षों में कर्नाटक में घरेलू पर्यटकों की यात्राओं और विदेशी पर्यटकों की यात्राओं का विवरण इस प्रकार है:

2019-2022 के दौरान कर्नाटक में घरेलू पर्यटकों की यात्राएं (डीटीवी) और विदेशी पर्यटकों की यात्राओं के विवरण:

वर्ष	डीटीवी	एफटीवी
2019	227934714	608754
2020	77453339	165325
2021	81333659	72487
2022 (अ) (जनवरी-सितंबर)	125998687	41270

अ- अनंतिम

(ग): 'एक विरासत को अपनाएं' परियोजना के तहत मंत्रालय का लक्ष्य पूरे भारत में फैले विरासत/ प्राकृतिक/ पर्यटन स्थलों पर पर्यटन सुविधाओं को विकसित करना है ताकि उन्हें योजनाबद्ध और चरणबद्ध तरीके से पर्यटक अनुकूल बनाया जा सके, जो सार्वजनिक-निजी भागीदारी का एक उदाहरण है। उक्त परियोजना के तहत, सत्ताईस (27) स्थलों के लिए 15 स्मारक मित्रों को 29 समझौता ज्ञापन प्रदान किए गए, जिसमें हम्पी भी शामिल है। इसके बाद, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के अधिकार क्षेत्र में आने वाले स्मारकों /स्थलों के लिए, विभिन्न स्मारक मित्रों के साथ हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापनों को अब संस्कृति मंत्रालय को हस्तांतरित कर दिया गया है।

(घ): पर्यटन मंत्रालय द्वारा राज्य-वार जनशक्ति सृजन का रखरखाव नहीं किया जाता है। बीच के वर्षों और बाद के वर्षों के लिए तीसरे पर्यटन सैटेलाइट अकाउंट (टीएसए) के अनुमान के अनुसार, वर्ष 2017-18, 2018-19, 2019-20 और 2020-21 के लिए देश के रोजगार में पर्यटन का योगदान इस प्रकार है:

	2017-18	2018-19	2019-20	2020-21
रोजगार में हिस्सेदारी (% में)	14.78	14.87	13.50	12.91
प्रत्यक्ष (% में)	6.44	6.48	5.89	5.63
अप्रत्यक्ष (% में)	8.33	8.38	7.61	7.28
पर्यटन के कारण प्रत्यक्ष + अप्रत्यक्ष रोजगार (मिलियन में)	72.69	75.85	69.44	68.07

(ड) भाग (ख) के समान।
